



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019  
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER

Jaipur, September 06, 2019

**F.10 (Elec) LSG/19/8895** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Kapasan has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Kapasan. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,  
Ujjwal Rathore,  
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रपत्र - 'क'

वार्ड संख्या	वार्ड की सीमाएं
1	पुर्बिया मौहल्ला में स्थित श्री चतरभुज पुर्बिया चोकिदार के मकान से देवमगरी की ओर जाने वाले रास्ते की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए गणपतसिंह के मकान को लेते हुए देवमगरी के पश्चिम की सम्पूर्ण आबादी जिसमें जाशमा रोड़ गाडियालौहार बस्ती की आबादी/भैरुलाल राव का मकान/जलदाय विभाग की टंकी शामिल होगी, को लेते हुए रामसिंह का मकान, नारायण सुथार का मकान न्यातियों, बाघमारों का नोहरा को शामिल करते हुए पुराने पशु चिकित्सालय तक जाने वाले रास्ते की बांयी ओर की कुलिया आबादी, जो पुराने पशु चिकित्सालय भवन तक समाप्त होगी।
2 (अ.जा.)	रेगर मौहल्ले की ओर जाने वाली देवमगरी के दक्षिणी तरफ वाले रास्ते की बांयी ओर की आबादी को लेते हुए रेगरो की कुई तक वहां से रेगर मौहल्ले की ओर जाने वाले रास्ते की दोनों ओर की आबादी/रामदेव मन्दिर व उसके आस पास की आबादी को लेते हुए सुथारों, जाटों के मकान को शामिल करते हुए शोकिनलाल कुमावत के कोने वाले मकान तक वहां से रुपतलाई की ओर जाने वाले रास्ते की बाईं और की आबादी को लेते हुए पुनः पुराने पशु चिकित्सालय

	<p>भवन से भांबियान/ बलाईयान के मकान को शामिल करते हुए श्री नानानाथ योगी के छात्रावास वाले मकान तक की बाईं ओर की आबादी वहां से सिरिया मौहल्ला की ओर जाने वाली सड़क की बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री चतरभुज पुर्बिया चोकीदार के मकान तक की आबादी।</p>
3	<p>उदयपुर रोड़ स्थित नया पेट्रोल पम्प से कृषि उपज मण्डी उसके पीछे की आबादी को शामिल करते हुए श्री दुर्गाशंकर तिवाडी के मकान को लेते हुए धमाणा रोड़ चैराये तक की बायीं ओर की आबादी वहां से धमाणा की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित श्री सुरेन्द्र कुमार सौमानी का मकान रंगलाल सोनी का मकान, कैलाश टोकिक जिसमें नई हरिजन बस्ती भी शामिल होगी की कुलिया आबादी।</p>
4	<p>धमाणा रोड़ पर स्थित स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह राजपुत के मकान से शहर की ओर आने जाने वाली सड़क की बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए हरकलाल भदादा के मकान तक वहां से नन्दलाल ख्यालीलाल तम्बोली के मकान से पुराना उदयपुर रोड़ से शहर में आने वाली सड़क की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री चुन्नीलाल चाष्टा के मकान तक तथा दांयीं और पलोडों के चक्की वाले मकान तक पुनः चुन्नीलाल चाष्टा के मकान से अस्पताल की ओर जाने वाले रास्ते की बाईं ओर की आबादी को लेते हुए बालमुकुन्द व्यास के नीम के नीचे स्थित मकान तक वहां से अस्पताल के सामने की आबादी को लेते हुए मांगीलाल छीपा का मकान, डालचन्द रेगर का मकान वहां से देवमगरी के पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते की बांयीं ओर की आबादी को शामिल करते हुए स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह राजपुत के धमाणा रोड़ पर स्थित मकान तक जिसमें चमारों की गली, विजयवर्गीयों की गली, नन्दवानों की गली भी शामिल होगी।</p>
5	<p>उदयपुर रोड़ स्थित आई.टी.आई. कार्यालय से शहर की ओर आने वाली सड़क की दाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री कमरुद्दीन अकबर अली के प्रताप चैराये पर स्थित मकान तक वहां से शहर की ओर आने वाली सड़क की दाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री छगनलाल जाट के मकान तक जिसमें आदर्श कॉलोनी, महावीर नगर, शिवशक्ति नगर, रोकडिया हनुमान मन्दिर, सनसिटी कॉलोनी, सनसिटी विस्तार कॉलोनी सहित इसके तरफ जाने वाले सड़क की दायीं ओर की कुलिया आबादी जो राष्ट्रीय राजमार्ग तक शामिल होगी।</p>
6	<p>राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारम्भ होकर सोमानी बाग सोमेश्वर महादेव जी की ओर आने वाली सड़क दायीं ओर की आबादी को सोमेश्वर महादेव तक शामिल करते हुए पुनः सोमेश्वर महादेव से सड़क की दायीं ओर खुलने वाले मकानों की आबादी को लेते हुए श्रीराम कॉलोनी को शामिल करते हुए श्री मांगीलाल बंजारा के मकान तक वहां से शहर की ओर आने वाली पांच बत्ती चोराये तक जिसमें पलौड़ो का मकान, स्वर्णकारो के मकान, पांच बत्ती चोराया तक, वहां से स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क की दाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए पेट्रोल पम्प तथा सोमानी की धर्मशाला तक वहां से स्टेशन की ओर आने वाली सड़क की दोनों ओर जिसमें</p>

	मामा भाणेज दरगाह, पुलिस थाना, महाराणा सैकेण्डी स्कूल शामिल होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गणपति नगर, राजीव नगर, जय अम्बे कॉलोनी, दुर्गामाता मन्दिर, आर.एन.टी. कॉलोनी, आस-पास की कुलिया आबादी।
7	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बी.एस.एन.एल. ऑफिस के पीछे होण्डा शोरूम की ओर जाते हुए श्री यासीन भाई (सहारा इण्डिया वाले) के मकान तक। पुनः श्री यासीन भाई के मकान से रण्डियारडी रोड़ की ओर जाने वाले रास्ते की बाईं ओर को शामिल करते हुए श्री यासीन शाह के मकान से श्री योगी की होटल तक। वहां से चित्तौड़गढ़ की ओर जाने वाली सड़क की दायी ओर की आबादी को लेते हुए सांवलिया चोराया तक। वहां से स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क के दोनो ओर की आबादी को शामिल करते हुए रेल्वे स्टेशन तक। पुनः रेल्वे स्टेशन चोराया से सांवरिया जी की ओर जाने वाली सड़क की दोनो ओर की आबादी को शामिल करते हुए, रेल्वे पुलिया तक। वहां से भादसोड़ा की ओर जाने वाली सड़क की बायीं ओर की आबादी को शामिल करते हुए बुधाखेड़ा के चमनपुरा क्षेत्र की आबादी। इसमें अध्यापक कॉलोनी, उपखण्ड कार्यालय, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, पंचायत समिति, दरगाह, बुधाखेड़ा स्कूल के पीछे की आबादी, मोदी के मकान सहित रेल्वे स्टेशन की आबादी भी शामिल होंगे।
8	दरगाह के पीछे की शेष नन्दवाना कॉलोनी की आबादी को शामिल करते हुए रिद्धि सिद्धि नगर, अर्पण नगर की आबादी, राजकीय महाविद्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय आदि शामिल होंगे।
9 (अ.ज.जा.)	बुधाखेड़ा में चमनपुरा के अतिरिक्त सम्पूर्ण आबादी एवं गुजरियाखेड़ा की सम्पूर्ण आबादी शामिल होगी।
10	स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क स्थित श्री झमकुलाल सौमानी, रतनलाल, नगजीराम चास्टा की बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए लोडकिया बाजार की ओर जाते हुए सदर बाजार, तोतेडों की हवेली तक, की बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए पुनः वहां से लोडकिया बाजार, जगन्नाथ के मकान से प्रारम्भ होकर कुम्हारों के मौहल्ले की दोनो ओर की आबादी को शामिल करते हुए जगदीश मन्दिर, नया बस स्टैण्ड, नरसिंह द्वारा, रामद्वारा को शामिल करते हुए स्टेट बैंक, बडोदा बैंक, पशु चिकित्सालय को लेते हुए सौमानी सराय की बाईं ओर की आबादी लेते हुए। पुनः सुखाडिया मार्केट की आबादी को शामिल करते हुए लोडकिया बाजार में स्थित श्री जगन्नाथ लड्डा के मकान तक की दाईं ओर की आबादी। इसमें उपाध्यायों की गली भी शामिल होगी। खारी बावडी के सामने वाली गली ओमजी काबरा वाली गली शामिल होगी। भैरुजी की गली भी शामिल होगी।
11	प्रताप चोराया स्थित श्री सत्यनारायण पलौड़ के मकान से शहर की ओर आने वाली सड़क श्री भगताराम के मकान तक की बाईं ओर की आबादी को लेते हुए पुराना बस स्टैण्ड से भगताराम सौमानी के मकान से सौमानी मौहल्ला में जाने वाली सड़क की दाईं ओर की आबादी को शामिल

	करते हुए श्री मुरली पलौड़ की चक्की तक। जिसमें पुरानी हरिजन बस्ती शामिल होगी।
12	सौमानी मौहल्ले में स्थित श्री रामनारायण नन्दवाना व हनुमानजी देवरी के पास स्थित बंशीलाल सौमानी के मकान से पुराने बस स्टेण्ड की और जाने वाली सड़क की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए बिल्ली का देवरा, भाणोदा, सुथारो का मौहल्ला को शामिल करते हुए बालुलाल काबरा के मकान तक। पुनः श्री बालुलाल काबरा के मकान से अस्पताल की और जाने वाली सड़क की दाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए चोथमल बापना की गली, रामलाल जाट का मकान, मुखजी ठेकेदार के मकान को लेते हुए अस्पताल तक की दाईं ओर की आबादी वहां से कचहरी घाटी की और जाने वाले रास्ते की दोनों ओर की आबादी को लेते हुए शंकरलाल लोढ़ा का मकान व लोबचन्द जाट के कोने वाले मकान तक जिसमें शफी मौहम्मद शेख की गली व अस्पताल के पीछे की आबादी शामिल होगी।
13	सिरोया मौहल्ले चोक में स्थित भूपालसिंह राजपुत के मकान से नया बाजार की और जाने वाली सड़क की बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री मौहम्मद अली वकील के मकान तक वहां से शान्तिलाल संचेती के मकान से पुराना पोस्ट ऑफिस सुरेश बाघमार के मकान तक की ओर आते हुए बांयी ओर की आबादी को लेते हुए दर्जीयों के मकान लक्ष्मीनाथ मन्दिर की गली को लेते हुए भण्डारियों की हवेली तक की बांयी ओर की आबादी वहां से पुरानी कचहरी की ओर जाने वाली सड़क की बांयी ओर की आबादी को लेते हुए कचहरी जाजु, झंवरों का मौहल्ला, बांकेदारों की गली, सुनारिया मन्दिर तक पैषाबघर के पास स्थित श्री भंवरलाल हलवाई के मकान से पुरानी कचहरी की ओर जाने वाली सड़क की बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए डाडों की हवेली तक पुनः हनुमान जी के देवरे से उपर की ओर जाते हुए अस्पताल की ओर जाने वाले सड़क की बांयी ओर की आबादी को लेते हुए रोशनलाल सिरोया व नानानाथ योगी के मकान तक।
14	सुनारिया मन्दिर के बाहर बने क्रॉस से सदर बाजार की ओर जाने वाली सड़क की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए पिपली बाजार में स्थित श्री नन्दकिशोर काकड़ा की दुकान तक जिसमें चण्डालियों की गली, पार्श्वनाथ मन्दिर के पास की आबादी, कल्याणरायजी मन्दिर के पूर्व, उत्तर व दक्षिण की आबादी, समदानीयों की गली, पिपली बाजार से पुरानी सब्जी मण्डी से नीचे की ओर चलते हुए दुग्गडों, चण्डालियों की गली में प्रवेश कर गली के दोनों ओर की आबादी को लेते हुए ओसवालों के स्थानक तक पुनः लोहारों के मन्दिर से नाथुलाल चण्डालिया, भंवरलाल चण्डालिया की गली की दोनों ओर की आबादी लेते हुए कोठारीयों की गली की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए लोहारों के मन्दिर के सामने बोहर वाडी की दोनों ओर की आबादी।
15	श्री धनराज सुथार के मकान से दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए महादेवजी के चतुबरे तक वहां से चारभुजा मन्दिर की तरफ जाने वाली पुरी गली की दोनों ओर की आबादी को

	<p>मिलाते हुए चारभुजा मन्दिर के आगे पीछे का मौहल्ला, श्री भंवरदास की गली को मिलाते हुए श्री मथुरालाल पलोड़ की दुकान से सदर बाजार होते हुए दांयी और की आबादी को मिलाते हुए माहेश्वरीयों का पंचायती नोहरा मालनिया बाजार के कोने पर स्थित श्री काकड़ा के मकान तक वहां से नीचे उतरते हुए दांयी और की आबादी को लेते हुए, धोबियों के मकान माहेश्वरी पंचायती नोहरे के उत्तरी दरवाजे की आबादी को शामिल करते हुए नीचे धोबियों की और जाने वाली सड़क की दोनों और की आबादी को शामिल करते हुए श्री सोहनलाल धोबी के मकान तक जिसमें भैरुलाल सेन, सोहनलाल चण्डालिया, तिवाडीयान एवं लड्डों के मकान शामिल होंगे।</p>
16	<p>श्री हरिशंकर बारेगामा मकान में नगरपालिका, संतोषी माता मन्दिर के पास की आबादी को लेते हुए पुराने कृषि विभाग तक वहां से पुनः ब्रह्मपुरी मे जाते हुए दोनों और की आबादी को लेते हुए महादेवजी के मन्दिर के चबुतरे के पास बालुराम दाधिच का मकान व उसके सामने वाले मकान तक। जिसमें गोपीलाल पण्डा की गली मस्जिद का चौक, बारेगामा की गली तक एवं कन्या स्कूल की गली दोनो ओर कुलिया आबादी।</p>
17	<p>अब्दुल गनी की गली में स्थित सलाम के मकान से पुरानी राशमी रोड़ तक आते हुए बांयी और की आबादी को लेते हुए रघुनाथद्वारा की और आते हुए, पुराने राशमी रोड़ की बांयी और की आबादी को लेते हुए मस्जिद के पास स्थित, गोवर्धनलाल सुनार के मकान से राशमी रोड़ की बांयी और की आबादी को लेते हुए कादर चक्की तक। मोमीन मौहल्ले मे स्थित अब्दुल गनी की गली मे स्थित अब्दुल गनी के मकान से शुरु होकर रोड़ की और आने वाले रास्ते की दांयी और की आबादी को लेते हुए जिसमे मौहम्मद हुसैन, अब्दुल मजिद, नसीर अहमद, अब्दुल कादर के मकान को मिलाते हुए राशमी रोड़ पर स्थित कासम के मकान तक की दांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए नाथु पिनारों के मकान तक वहां से मोमीन मौहल्ले मे प्रवेश करते हुए चित्तौड़ रोड़ पर नहर के पास स्थित श्री देवाजी खटीक के मकान तक की दांयी और की आबादी व इसके मध्य स्थित मस्जिद के चारों और की आबादी।</p>
18 (अ.जा.)	<p>चित्तौड़गढ़ रोड़ स्थित मस्जिद के पास स्थित खटीक मौहल्ला को शामिल करते हुए श्री कैलाश बारेगामा के मकान से चित्तौड़गढ़ सड़क की दोनों और की आबादी जिसमे मोटाखेत आबादी को शामिल करते हुए, चित्तौड़ रोड़ स्थित बस्ती की दोनो ओर की आबादी को शामिल करते हुए अम्बेडकर भवन तक तथा इसमें बालारड़ा रोड़ की सम्पूर्ण बस्ती, गुलाबसागर में स्थित भीलों की बस्ती को मिलाते हुए, रघुनाथ द्वारा, पुराना स्कूल की कुलिया आबादी शामिल होगी। इसमें पुराना राशमी रोड़ स्थित श्री रघुनाथ खटीक वाली गली की दोनो ओर की आबादी शामिल होगी।</p>
19	<p>पुराने राशमी रोड़ पर स्थित श्री मौहम्मद हुसैन के मकान से चित्तौड़ रोड़ की और जाने वाले रास्ते की बांयी और की आबादी को शामिल करते हुए नहर के पास स्थित श्री मौहम्मद याकुब के मकान तक। वहां से चमनपुरा की शौचालय वाली गली की दोनों और की आबादी को शामिल करते हुए मरड़ा खान के रास्ते तक, इसमे पुराने चमनपुरा गली से निकल कर सराफत जी भाटी</p>

	के मकान से लेकर रसीद जी भाटी के मकान तक जिन मकानों के दरवाजे उत्तर की ओर खुलते हैं, शामिल होंगे। जिसमें श्री मदनलाल आचार्य, सत्यनारायण आचार्य वाली गली की दोनों ओर की आबादी शामिल नहीं होगी। जिसमें दीवानाशाह बावजी व मोहम्मद हुसैन के पास वाली गली व उसके पास लगी समस्त मध्य की गलियां।
20	पुराने राशमी रोड़ स्थित उदयलाल छीपा के मकान से शहर की ओर आने वाली सड़क की दाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए बशीर की दुकान तक वहां से खान्दोलिया मौहल्ला की ओर जाने वाली सड़क की दोनों ओर की आबादी, गरुओं की हवेली। ढोलियों की गली की दोनों ओर की आबादी, नाईयों का चौक, सुथारों के मन्दिर की पुरी आबादी को मिलाते हुए, मोतीलाल टांक के मकान तक।
21	स्वर्गीय श्री मिठुलाल पायक एवं श्री कमरुद्दीन नियारगर के मकान से पुराने राशमी रोड़ शहर की ओर आने वाली सड़क की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए बाबो का चौक सहित जनानी बाड़े की ओर जाने वाली गली की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए, पुनः बाबा जी के चौक से भैरुजी का चौक तक की बाईं ओर की आबादी को शामिल करते हुए मरड़ा खाने जाने वाले रास्तों की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए, जिसमें श्री केशर सिंह राजपूत के मकान से लगाकर श्री बलवन्त सिंह राजपूत के मकान तक सम्मिलित है, से पुनः चमनपुरा की श्री मदनलाल आचार्य वाली गली में दोनों ओर की आबादी को लेते हुए आबादी शामिल होगी तथा इसमें पुराने चमनपुरा गली से निकल कर सराफत जी भाटी के मकान से लेकर रसीद जी भाटी के मकान तक जिन मकानों के दरवाजे उत्तर की ओर खुलते हैं, शामिल नहीं होंगे।
22	धोबीखेड़ा, श्मसान घाट के पास की कुलिया आबादी, राजेश्वर तालाब की पाल, गोपाल द्वारा की कुलिया आबादी।
23 (अ.जा.)	चित्तौड़ रोड़ स्थित अम्बेडकर भवन से प्रारम्भ होने वाली सड़क की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए आरामशीन की बस्ती, विकास नगर, मोदी पेट्रोल पम्प, करणजी का खेड़ा तक की कुलिया आबादी। इसमें मियाचन्दखेड़ा, कालबेलिया बस्ती की कुलिया आबादी शामिल होगी।
24	पायक मौहल्ला में स्थित जनानी बाड़े की गलियां शामिल करते हुए पुराना राशमी रोड़ पर स्थित क्रॉस से तालाब की ओर जाने वाली सड़क की दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए चम्पालाल तेली के मकान तक, वहां से फकीर मौहल्ले के दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए भैरुलाल सेणा के मकान तक पुनः वहां से राशमी रोड़ से फकीर मौहल्ला चम्पालाल तेली के मकान तक की बांयी ओर की आबादी जिसमें आचार्य गली, मालियों की गली, व्यासों का चौक, ओसवालों का पंचायती नोहरा व उसके सामने की गली भी शामिल होगी।
25	नीलगरों की गली से शुरु होकर गली के दोनों ओर की आबादी को मिलाते हुए तालाब की ओर जाते हुए राशमी रोड़ की बांयी ओर की आबादी को मिलाते हुए सुनारिया मन्दिर के सामने खुरे

की दोनों और की आबादी को मिलाते हुए जमाल तांगा वाला के मकान को लेते हुए कावडिया मन्दिर के पास स्थित श्यामलाल बेनीराम के मकान तक की बांयी और की आबादी पुनः राजेश्वर तालाब पर स्थित जलदाय विभाग से प्रारम्भ होकर कावडिया मन्दिर, नारायणदास, उंकारदास के मकान को लेते हुए श्री सफाकत अली की सिमेन्ट गली की बांयी और की आबादी को लेते हुए मांगीलाल गेलड़ा के पब्लिक हाईडेंट के पास स्थित मकान तक की बांयी और की आबादी को लेते हुए सोहनलाल चोपड़ा, भंवरलाल हलवाई के मकान तक, पुनः श्री सत्यनारायण गेलड़ा के मकान से सफाकत अली जी की गली से नीचे उतरते हुए बांयी और की आबादी को लेते हुए पुर्बिया मौहल्ला की बांयी और की आबादी को लेते हुए सड़क श्री पन्नालाल, तुलसीराम सुथार के नीम के नीचे वाले मकान तक इस बीच में आने वाली लक्ष्मणसिंह ड्राईवर वाली गली (सोकत अली के पीछे) की कुलिया आबादी पुनः रतनलाल पूर्बिया के मकान से पूर्बिया मौहल्ले की और जाते हुए बांयी और की आबादी जिसमें श्री चम्पालाल बागड़ा, लालाप्रसाद, गोपीलाल कुमावत, मुमताज अली के मकानों को लेते हुए जलदाय विभाग तक।

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका कपासन

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।